# **COP27: Informal draft has** little new for poor nations

Focus is on coal 'phase-down', 'phase out and rationalise' fossil fuel subsidies

SHREYA JAI New Delhi. 17 November

s the climate negotia-Conference of the Parties (COP27) at Sharm el-Sheikh, Egypt, come to a close, the emerging negotiation text seems to be tilting again more in favour of the Global North with nothing much or new to offer to

developing nations. From new finance pools for adaptation needs of poor nations to their energy transition planning, the informal draft text, released by the UN on Thursday, steers clear of any strong support for the demands of the Global South.

The negotiations on the outcome text are going on and the final text is expected on Friday, said sources involved in the process in Egypt.

The text has provided no dollar billion figure for the historical polluters to pay as compensation to poor nations suffering from climate extremes.

The informal text takes into account the various agendas under negotiation. The language of the final text will be discussed on the penultimate day of the conference. Last year, on the last day of COP26, because of the push from India,

nations, "coal phase-out" (shutdown) was changed to coal "phase-down" (gradual reduction). The then COP26 president, Alok Sharma, cried during the concluding press conference, saying he was terribly sorry for this last-minute change in the language on coal.

As the world grapples with the energy crisis and European nations fall back on



President-elect of Brazil Luiz Inacio Lula da Silva attends a meeting at COP27 climate summit, in Sharm el-Sheikh, Egypt, on Thursday

fossil fuels, the informal text coal and none on oil or gas. has laid responsibility for emission reduction on only coal, something that developing nations, including India, vehemently opposed.

The draft said: "(It) encourages the continued efforts to accelerate measures towards the phase down of unabatphase out and rationalize inefficient fossil fuel subsidies, in line with national circumstances

and recognizing the China and other developing need for support towards just transitions.

The Indian delegation, while citing the Sixth Assessment Report (AR6) of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), said there was "need for phase down for all fossil fuels, in the context of clean energy transition".

The negotiating text during COP26 had also used sim- no enhancement on the investors and other financial ilar language with the onus on decade-old \$100-billion cli- actors," the text said.

The draft said: has, however, pointed out: "Expresses deep regret that developed countries who have the most capabilities financially and technologically to lead in reducing their emissions continue to fall short in doing so, and are taking inadequate and unambitious goals to achieve ed coal power and net zero emissions by 2050, while they continue to emit and disproportionately conglobal carbon budget."

It was expected that developing nations, especially from Africa and South Asia, would have a chance to present their demands more strongly than ever at COP27 and there would be an enhanced focus on "loss and damage funding" (LDF) and climate adaptation solutions.

mentioned any separate funding for either. There has been mercial banks, institutional

mate-funding goal. The text has recognised the need of \$4 trillion annually for renewable energy capacity addition in developing countries but the responsibility has been put on global institutions. It has reiterated the need to double the adaptation finance to match it to the corpus towards mitigation.

"Highlights that about \$4 trillion a year needs to be invested in renewable energy until 2030 - including investments in technology and infrastructure— to allow us to reach net-zero emissions by 2050. Furthermore, a global transformation to a low-carbon economy is expected to require investments of at least ₹4-6 trillion a year. Delivering such funding will require a transformation of the financial system and its structures But the draft text has not and processes, engaging governments, central banks, com-

#### **INSILCO LIMITED**

(Under Voluntary Liquidation wef 25.06.2021) CIN: L34102UP1988PLC010141

egd. Office - A - 5, UPSIDC Industrial Estate, Bhartiagram, Gajraula, Distt. Amroha, U.P.-244223 one: 09837923893, Fax: (05924) 252348, Email id: insilco2@gmail.com, Website: www.insil

#### **INTIMATION OF THE ADJOURNED** EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING OF INSILCO LIMITED

t is hereby informed that the Extra-ordinary General Meeting (EGM) of the Members o he Company was scheduled to be held on Tuesday, 15th November 2022 through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business listed in the Notice of the Extra-ordinary General Meeting dated 21<sup>st</sup> October 2022 convening the EGM. Accordingly, the Notice of EGM was sent to all the Shareholders to transact the

On the scheduled date of EGM i.e. 15th November 2022, the requisite quorum for holding the EGM was not present and therefore, the EGM was adjourned to same day, same time

Now, Notice is hereby given to all the members/shareholders of the Company that he adjourned Extra-ordinary General Meeting (EGM) will be held on Tuesday, 22" November 2022 at 2.00 p.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business set out in the Notice of Extra-ordinary General Meeting (EGM) dated 21st October 2022 convening the EGM.

- All the notes/instructions/information mentioned in the notice dated 21st October 2022
- for the original EGM shall apply mutatis mutandis to the adjourned EGM and the same is available on the website of the Company <a href="https://www.insilcoindia.com">www.insilcoindia.com</a>.
- In case of a person having any queries/grievances pertaining to adjourned EGM of other incidental matters, they can write an e-mail to <a href="mailto:insilco2@gmail.com">insilco2@gmail.com</a>.
  As per Section 116 of the Companies Act, 2013, resolution shall, for all purposes, be
- treated as having been passed on the date on which it was in fact passed i.e., on 22 For Insilco Limite

Geetika Varshney Place : Palwal, Haryana

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT CHENNAL CP(CAA)/87(CHE)2022

> CA(CAA)/34(CHE)2022 IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013

In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013

In the matter of Scheme of Amalgamation of Howden Air & Gas India Private Limited and Howden Thomassen Compressors India Private Limited with Howden Solvent (India) Private Limited and their respective Shareholders and Creditors Howden Solyvent (India) Private Limited

A company incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at No.147, Poonamalee High Road, Numbal Vil Kancheepuram D.T. Kancheepuram D.T. 600077 Tamil Nadu India

PAN: AAACF6153G ...Petitioner/Transferee Company

#### **NOTICE OF HEARING OF THE PETITION**

Notice is hereby given that Petition under Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions thereunder ("the Petition") seeking an Order for sanctioning of the Scheme of Amalgamation of Howden Air & Gas India Private Limited ("Petitioner ("Petitioner/Transferor Company(2)") with Howden Solyvent (India) Private Limited ("Petitioner/Transferee Company") and their respective Shareholders and Creditors, was presented jointly by the Petitioner Companies on 04° September, 2022 with the National Company Law Tribunal ("NCLT" or "Tribunal"), Chennai and the same has been admitted by an Order dated 12th October, 2022 ("the said Order") by the Tribunal at Chennai. In pursuance of the said Order, the captioned Petition has been fixed for hearing before

ne Chennai bench of the National Company Law Tribunal ("NCLT" or "Tribunal") on 14th December, 2022.

Any person desirous of supporting or opposing the Petition should send to the NCLT and or to Adv. Cibi Vishnu, S. Mukundan, P. Giridharan, & Domimic David, Advocate for the Petitioner Companies at the address mentioned below, a notice of his/her intention signed by him/her or his/her advocate, with his/her name and address, so as to reach the NCLT and/or Adv. Cibi Vishnu, S. Mukundan, P. Giridharan, & Domimic David not later han 2 working days before the date fixed for the hearing of the Petition. Where they seek to oppose the Petition, the grounds of such opposition or a copy of the affidavit shall be A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring

the same, free of charge, **Authorised Signatory of Transferee Company** 

Address: Adv. Cibi Vishnu, S. Mukundan, P. Giridharan, & Domimic David "Vanguard House" 3<sup>rd</sup> Floor, No. 48, Second Line Beach, Parrys, Chennai 600 001

NMDC SWEEPS PRCI

**EXCELLENCE AWARDS 2022** 

NMDC bagged the Champion of Champions Award, sweeping the

16th PRCI Global Communication Conclave 2022, to bring home

fourteen Corporate Communication Excellence Awards. The awards

were presented at the Global Communication Conclave organised by

Public Relations Council of India (PRCI) in Kolkata. NMDC won Gold

TENDER CARE —

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT CHENNAI CP(CAA)/87(CHE)2022

Reliance

Read. Office: 3rd Floor, Maker Chambers IV, 222, Nariman Point, Mumbai - 400 021

Phone: 022-3555 5000 • Fax: 022-2204 2268 • E-mail: investor.relations@ril.com CIN: L17110MH1973PLC019786

NOTICE TO THE DEBENTURE HOLDERS OF PPD SERIES IA – RECORD DATE AND
FIFTH PAY-IN DATE

Notice is hereby given that the Record Date and fifth Pay-in date for the Unsecured

Redeemable Non-Convertible Debentures of the face value of Rs. 10,00,000 each of

INE002A08674

November 24, 2022

December 9, 2022

Debenture holders who hold the Unsecured Redeemable Non-Convertible

Debentures of PPD Series IA on the Record Date i.e. November 24, 2022, shall be

required to pay an amount of fifth tranche of Rs. 2,00,000 per Debenture on the

Presently, an amount of Rs. 8,00,000 per debenture has been paid-up on Unsecured

Redeemable Non-Convertible Debentures of PPD Series IA and after payment of fifth

dated December 6, 2018

For payment of fifth tranche of Rs. 2,00,000

per Debenture as per the Disclosure Docum-

For Reliance Industries Limited

Savithri Parekh

Company Secretary and

8.70% p.a

PPD Series IA, are as below:

ISIN

% of interest

Record Date

Fifth Pay-in Date

Place: Mumbai

: November 17, 2022

Call amount per Debenture | Rs. 2,00,000

tranche, the said debentures shall become fully paid-up.

## CA(CAA)/34(CHE)2022 IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 2013

In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 AND

In the matter of Scheme of Amalgamation of Howden Air & Gas India Private Limited and Howden Thomassen Compressors India Private Limited with Howden Solvent (India) Private Limited and their respective Shareholders and Creditors Howden Air & Gas India Private Limited,

A company incorporated under the Companies Act. 1956 having its registered office at

147, Poonamallee High Road, Numbal Village,

Chennai - 600077, Tamil Nadu, India.

PAN: AABCH9343R. ...Petitioner/Transferor Company (1)

#### NOTICE OF HEARING OF THE PETITION

Notice is hereby given that Petition under Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 and other applicable provisions thereunder ("the Petition") seeking an Order for sanctioning of the Scheme of Amalgamation of Howden Air & Gas India Private Limited ("Petitione Transferor Company (1)") and Howden Thomassen Compressors India Private Limited ("Petitioner/Transferor Company(2)") with Howden Solyvent (India) Private Limited ("Petitioner/Transferor Company") and their respective Shareholders and Creditors, was presented jointly by the Petitioner Companies on 04th September, 2022 with the National Company Law Tribunal ("NCLT" or "Tribunal"), Chennai and the same has been admitted by an Order dated 12th October, 2022 ("the said Order") by the Tribunal at Chennai. n pursuance of the said Order, the captioned Petition has been fixed for hearing before

the Chennai bench of the National Company Law Tribunal ("NCLT" or "Tribunal") on

Any person desirous of supporting or opposing the Petition should send to the NCLT and/or to Adv. Cibi Vishnu, S. Mukundan, P. Giridharan, & Domimic David, Advocate for the Petitioner Companies at the address mentioned below, a notice of his/her intention, signed by him/her or his/her advocate, with his/her name and address, so as to reach the NCLT and/or Adv. Cibi Vishnu, S. Mukundan, P. Giridharan, & Domimic David not later than 2 working days before the date fixed for the hearing of the Petition. Where they seek to oppose the Petition, the grounds of such opposition or a copy of the affidavit shall be

A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same, free of charge Dated this 18<sup>th</sup> day of November, 2022 Authorised Signatory of Petitioner Company (1)

Address: Adv. Cibi Vishnu, S. Mukundan, P. Giridharan, & Domimic David

# **ACCENT REGION**

NOV 6-18

CHHATTISGARH

# Coal India banks on SECL for output

R KRISHNA DAS Raipur, 17 November

The coal ministry and Coal India Ltd (CIL) are reckoning on South Eastern Coalfields Ltd (SECL) to achieve the output target for 2022-23 (FY23) despite the underperformance of the public-sector undertaking's subsidiary.

CIL. which accounts for more than 80 per cent of domestic output, has set a target of 700 million tonnes (MT) for FY23.

SECL's output fell short by over 5 per cent against the annual plan in FY22. The company targeted 150 MT last year. However, it could extract 142.5 MT. The Bilaspurheadquartered company slipped to second place in production among the eight entities of CIL. Odisha-based

Mahanadi Coalfields took top spot. SECL has set a Meena decided to visit July target of 182 MT this SECL first, which spoke the progress.



ministry and CIL are keeping a close watch

"It could be gauged from the visit of the new coal secretary to the SECL mines soon after taking over the assignment," said a senior official of CIL. Within 12 days of

assuming office, Amrit Lal Meena went to the SECL projects on two days, concluding on Sunday.

Among all the entities,

volumes for the ministry's concern to push up production, the

> "In the review meeting, Meena told officials the ministry wanted the company to increase production/productivity and achieve the target this

> year," the official said. As the new mining plan started for FY23, CIL Chairman Pramod Agrawal visited SECL twice in three months till

### RAJASTHAN

# Global firms in state's IT push

ANIL SHARMA

With inputs from global firms such as Oracle and Cisco, the Rajasthan government has set up the Rajiv Gandhi Centre of Advanced Technology (R-CAT), which is functioning as an IT finishing school, imparting training to youths and working professionals and developing soft skills to make them industry-ready.

R-CAT is managed under the aegis of the state government's Department of Information Technology Communication (DoIT&C).

"This would provide better employment opportunities to youths in the public and private sectors," a senior state government official said.

According to the official, over 80 training programmes are being run in R-CAT. They include artificial intelligence, machine learning, robotics, cloud computing, blockchain, augmented reality/virtual reality, big data analysis, clinical data analysis, quantum computing, the Java programme, and data science. The state government has provided advanced equipment, trainers, and infrastructure. The duration of the training programmes is from one week to six months. Apart from Oracle and Cisco, international companies such as VMware, Red Hat, and SAS conduct them.

# UTTAR PRADESH

# Varanasi-Haldia waterway to boost exports

VIRENDRA SINGH RAWAT Lucknow, 17 November

The Uttar Pradesh government is set to leverage the Varanasi-Haldia inland waterway to boost exports, including those of farm commodities and manufacturing goods. The government is targeting increasing of merchandise exports from ₹1.56 trillion to ₹3 trillion in the next three years. The micro, small and medium enterprises (MSME) sector contributes 75 per cent to the state's export basket.

The plan is to harness easy and cheaper cargo movement from Varanasi through the Ganga to the

seaport in West Bengal to export agricultural and horticultural produce, dairy products and MSME items. Growing number of expressway projects, coupled with 4-6-lane state and national highways, provides faster connectivity between destinations. The integration of the Varanasi-Haldia inland waterway with the road and expressway network will provide a seamless transportation channel for the state's export cargo. Although the Varanasi-Haldia

inland waterway, operated by the

Inland Waterways Authority of India

(IWAI) is operational, the state aims to

develop alternative intrastate inland

waterways systems to cater to both passenger and cargo movements. "The state government will offer full support to the Centre to develop such waterways projects, which will go a long way in providing jobs to the youth and benefitting the farmers," Chief Minister Yogi Adityanath said.

He said the state was at the crux of the Eastern and Western Dedicated Freight Corridors and is fast developing as a multimodal logistics hub in India.

Meanwhile, the Varanasi inland port has already clocked exports of one

district one product (ODOP) items worth ₹3,700 crore to date.

awards for Most Resilient Company of the Year: Internal Communication Campaign, Corporate Brochure; Best PSE Implementing CSR. It won Silver Awards in the categories of Best Use of CSR for Childcare: Corporate Community Impact: Best Corporate Event: Unique HR Initiatives; Annual Report; Arts, Culture & Sports Campaign and Bronze Awards for Visionary Leadership; Website of the Year; Innovative Environmental Program and Consolation Award for Best Use of Social Media. P Jaya Prakash, Head of Corporate Communication, NMDC thanked PRCI for encouraging innovation in communication techniques and recognizing the creative initiatives of NMDC. "Our brand voice and communication campaigns are rooted in our company's core values and designed to resonate with our host communities and industry stakeholders." Congratulating NMDC's Corporate Communication team, CMD, Sumit Deb said, "If NMDC today is a household name as a benchmark of excellence in the mining sector in India, it is only because of the exceptional articulation of our communication team in conveying what we achieve and stand for to internal and external stakeholders"

### RECORD PERFORMANCE BY FACT

The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT) has achieved all time high profit of Rs.281.59 Crores during the first half of the Financial Year 2022-23 as against Rs.76.25 Crores for the corresponding period of the previous year. FACT has also achieved record turnover of Rs.3275 Crores during the 1st half of the financial year 2022-23. The turnover for corresponding period of the previous year was Rs.1574 Crores. The Company recorded a net profit of Rs. 144.60 Crores in the second quarter of FY2022-23 compared with Rs. 36.45 Crores in the corresponding quarter last year. The turnover was Rs.1960.36 Crores in the quarter against Rs.808.19 Crores in the same quarter last year. This result was achieved by improving the operational efficiency and sourcing of raw material by entering into long term agreement for supply.

#### **INDIAN BANK CONDUCTED TOWN HALL MEETING AT BENGALURU**

Indian Bank conducted a Town Hall meeting on 14th November. 2022 at Bengaluru. The meeting was chaired by S L Jain, MD & CEO, Indian Bank. Sudhir Kumar Gupta, Field General Manager, Bengaluru, Dhanraj T, General Manager (CDO) and



S Suresh Kumar, General Manager (CCO), also attended the meeting. The Bank has launched project Ind Pride and Project Wave as a part of new initiatives keeping focus on employees, customers and business growth. These new initiatives

- Advertorial

will build fair, merit based and performance culture. The meeting was attended by around 250 officers working in Bengaluru Zone along with Zonal Managers & Deputy Zonal Managers of 5 Zones in Kerala & Karnataka. The meeting was streamed live for the benefit of 301 branches in FGM Bengaluru span.

#### **INDIAN BANK SPONSORS** E-RICKSHAW TO SHRADHANAND ANATHALYA TRUST, KARNAL

Indian Bank sponsored an e-rickshaw to Shradhanand Anathalya Trust, Karnal, under CSR, as a part of the ongoing "Azadi Ka Amrit Mahotsav" celebrations

On behalf of the Bank. Mahesh Kumar Bajaj, General Manager, Indian Bank, Corporate Office, handed over the key of the erickshaw to Thakur Virender Singh, Pres-



ident and Radhe Shyam Dudeja, General Secretary of Shradhanand Anathalya Trust, Karnal. Ashok Patnaik, Field General Manager, FGMO Chandigarh and his team of Karnal were also present from Indian Bank on this occasion.

The Shradhanand Anathalya Trust, Karnal, is a charitable trust that among many other social works, is engaged primarily in rehabilitation and care of orphaned children since 1927.

In his address, Mahesh Kumar Bajaj praised the noteworthy work being done by the Trust. He further underlined the significance Indian Bank lays on community building which keeps it at the forefront of supporting the needy sections of the society through its various CSR activities. Under its inclusive growth initiatives, Bank is proud to extend a helping hand to the orphanage.

### HPCL BAGS 12 PRESTIGIOUS AWARDS AT 12th PRCI EXCELLENCE AWARDS 2022

HPCL juggernaut rolls on at PRCI Excellence Awards Ceremony, with 12 distinguished awards for excellence in Public Relations & Corporate Communications. In a dazzling function held at Kolkata on the occasion of PRCI's 16th Global Communication Conclave, these awards were conferred by Radhakrishna, renowned author and philanthropist and Ramachandra - GM of Canara Bank and President of PFC and was received by Team Public Relations & Corporate Communication under Chief



Corporate Communications, Rajeev Goel. HPCL was presented awards for exceptional work in Branding, Public Relations & Corporate Communication which showcased its exceptional work to Deliver Happiness to its internal and external stakeholders. Raieev Goel, Chief General Manager - PRCC was also conferred with the coveted Dr. Anil Basu Memorial Award for Public Relations Professional for his contribution to development of PR profession and outstanding efforts towards brand building. The PRCI Annual Corporate Collateral

Awards for Corporate Communications are presented annually to recognize talent and professional standards















# कर्णाटका बैंक <u>लिमिटेड</u>

एसेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा . 3-बी. प्रथम तल. राजेन्द्र पार्क. पसा रोड नई दिली-110060

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्गठन और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) वे

तदुद्वारा सामान्य रूप से जनसाधारण एवं विशेष रूप से ऋणी (ऋणियों) एवं गारंटर(रों) को सूचित किया जात है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी रखी /प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका **प्रतीकात्मक कब्जा** कर्णाटका बैंक लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने **दिनांक 2**3.03.2022 को ले लिया है, को (1) मेसर्स देव इंटरनेशनल उसके प्रॉप्राइटर श्री चंद्र केत सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व, पता है इंडस्टियल प्रॉपर्टी नं. डी-श्रीमती अनीता कुमारी पत्नी श्री चंद्र केत सिंह, दोनों (2) एवं (3) का पता है एन-45, वृदावन गार्डन, जैन मंदिर के पास, साहिबाबाद, गाजियाबाद-210310, उत्तपप्रदेश जो ऋणी/गारंटर/सह-बाध्यताधारी हूँ, से कर्णाटका **बैंक लिमिटेड, लक्ष्मी नगर भारवा**, डी. नं. य-75, कालरा कॉम्प्लेक्स, शकरपर, लक्ष्मीनगर, दिछी-110093 पूर्व दिल्ली, प्रतिभूत लेनदार को ओवर्ड्राफ्ट अकाउंट नं. 1947000100059701 के तहत देय दिनांक 01 के अनुसार लागत एवं भावी ब्याज के साथ रु.20,87,381.78 (रुपये बीस लाख सत्तासी हजार तीन सौ इक्यार्स और पैसे अठहत्तर मात्र) की वसूली के लिए "जैसे है जहाँ है" एवं "जैसे है जो है" व "वहाँ जो भी है आधार" प दिनांक 27.12.2022 को बेच दिया जाएगा।

म्बलिखित प्लॉर पर आवासीय संपत्ति के सभी एवं अंश जिसका नं है 45एन (पार्ट) प्रथम तल बगैर क ाननाताचा त्यार उजावाचा कार्याक से ना एवं जर्मा जातक के . है उपने पाट), प्रथम तथा अधिकार के , आच्छादित क्षेत्रफल 32 वर्गयाई जो वृंदावन गार्डन के नाम से आवासीय कर्तानी में स्थित है ग्राम-पसोंदा, पराना लोतो, गाजियाबाद, उत्तप्रदेश जो श्रीमती अनीता कमारी से संबंधित है सीमाएँ पूर्वः प्लॉर . 45-एन का पार्ट, पश्चिमः 40 फीट चौड़े रास्ता के माध्यम से संपत्ति में प्रवेश, उत्तरः अन्य की संपत्ति, दक्षिणः

प्लॉट नं 45 – एन का पार्ट। आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति की बिक्री नहीं की जा सकती है: रु.13,16,000.00 (रुपटे तेरह लाख सोलह हजार मात्र

<mark>अमानत राशि जमा की जाएगी/अदा की जाएगी:</mark> रु.1,31,600.00 (रुपये एक लाख इकतीस हजार छह सौ मात्र) (प्रतिभूत परिसपत्तियों को छुड़ाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर ऋणी/गिरवीदाता का ध्यान आकर्षित किया जाता है)।

(यह सूचना ऋणी/गारंटरों को प्रतिभूत हित प्रवर्तन नियम-2002 के नियम (8) के उप-नियम (6) के अधीन

सचना के रूप में भी सेवा प्रदान करेगी। बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया, कर्णाटक बैंक की वेबसाइट अर्थार www.karnatakabank.com में "मॉर्गिज एसेट्स फॉर सेल" शीर्षक के अधीन लिंक का संदर्भ लें। ई-नीलामी का संचालन 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ 27.12.2022 को सुबह 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाता को अपना नाम https://bankauctions.in/ पर पंजीकृत करने की आवश्यकता पड़ेगी एवं यूजर आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करेंगे और ई-नीलामी पर आनलाइन प्रशिक्षण (अनुमान से 26.12.2022 को) मेसर्स 4क्लोज़र, 605ए, 6ठी मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद-500038 से प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क नं. 040-23836405, मोबाइल 8142000809, ई-मेलः <u>info@bankauctions.ir</u> तिथि: 16.11.2022 कते कर्णाटका बैंक लिमिटेड

### इनसिल्को लिमिटेड

प्रेषित की गई थी।

सीआईएन : L34102UP1988PLC010141

**पंजी. कार्यालय** : ए–5, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरौला, जिला– अमरोहा, यूपी. – 244223 फोन : **09837923893**, फैक्स : (05924) 252348, ईमेल आईडी : insilco2@gmail.com, वेबसाइट : www.insilcoindia.com

इनसिल्को लिमिटेड की प्रास्थगित असाधारण सामान्य बैठक के संबंध में जानकारी एतदद्वारा यह सचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) . गंगलवार, 15 नवम्बर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साध ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जानी निर्धारित थी. जिसमें असाधारण सामान्य बैठक के आयोजन की सूचना दिनांकित 21 अक्टूबर, 2022 में सूचीबद्ध कार्य निष्पादित किए जाने नियत थे। तदनुसार, ईज़ीएम की सूचना, उक्त सूचना में सूचीबद्ध कार्यों के निष्पादन हेतु, सभी शेयरधारकों को

ईजीएम की उक्त निर्धारित तिथि अर्थात 15 नवम्बर, 2022 को, ईजीएम के आयोजन हेतु आवश गणपूर्ति उपलब्ध नहीं थी और इसलिए ईजीएम अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय के लिए स्थगित

अब, एतद्द्वारा कम्पनी के सभी सदस्यों / शेयरधारकों को सूचना दी जाती है कि प्रास्थगित असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) मंगलवार, 22 नवम्बर, 2022 को अप. 2.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से, ईजीएम के आयोजन हेतु असाधारण सामान्य बैठक के आयोजन की सूचना दिनांकित 21 अक्टूबर 2022 में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी।

. मूल ईजीएम की सूचना दिनांकित 21 अक्टूबर, 2022 में वर्णित सभी नोट्स/अनुदेश/सूचन प्रास्थिगत ईजीएम पर, आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगी तथा वह कम्पनी की वेबसाङ्ग

www.insilcoindia.com पर उपलब्ध हैं। 

संदेह / शिकायत है, वह insilco2@gmail.com को ई-मेल लिख सकता है। को पारित माना जाएगा, जिस तिथि को यह वस्तुतः अर्थात 22 नवम्बर, 2022 को पारित किय

गया था। वास्ते इनसिल्को लिमिटेड (25-06-2021 की प्रभावी तिथि से स्वैच्छिक परिसमापनाधीन

गीतिका वार्ष्णे तिथि : 17 नवम्बर 2022 कम्पनी सेक्रेटरी एवं अनुपालन अधिकारी UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

द्वितीय तल, जीएमटीटी बिल्डिंग

2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना निर्गत की गयी थी। हालांकि, सूचना/यें सूचना—प्राप्तकर्ताओं को प्राप्त हुये बिना ही वापस आ गयी थी इसीलिये प्राधिकृत अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि ऋणकर्ता(गण) / गारंटर(गण) सूचना लेने से बच रहें हैं, अतः एतद्द्वारा उन्हें उनको भेजी गयी, परंतु वापस लौट आयीं सूचना के बारे में इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

गारंटर का नाम	
शाखाः देहरादून	भूमि
1. <b>महेंद्र सिंह</b> पुत्र मन बहादुर, बादोवाला	1291
आर्केंडिया, आर्केंडिया ग्रांट, प्रेम नगर,	फसल
देहरादून, उत्तराखंड–248007, <b>यहां पर भी</b> :	में सि
महेंद्र सिंह पुत्र मन बहादुर, खसरा सं. 1291,	इंन.,
मौजा–आर्केडिया ग्रांट, परगना–पचवाद्न,	4410
देहरादून, उत्तराखंड–248001, 2. मीना देवी	्बधक एवं 1
पत्नी महेंट सिंह बाटोवाला आर्केंडिया	34 1

के समस्त वह भाग तथा अंश जो खसरा सं. 10-02-2022 20-07-2022 ਓ. 2.69.408 ∕ − ੲ 1 मिन. पर हैं जिनका अधिमापन 130.67 वर्ग मीटर है जो खाता खतौनी सं. 15711390 ली से 1404 फसली पर, मौजा ऑकॅंडिया ग्रांट, परगना पचवा दून, जनपद देहरादून दिनांक 19.07.2022 ाधा त 1404 रंगरां पर् गांजा कार्याञ्च आहा. रंगरांग परचा हूं? जागव परराष्ट्री एवं तथा इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व- छोटे लाल का भूखंड अधिमापन 38 फुट 7 पश्चिम– सेलर्स संपत्ति, उत्तर– अन्य भूखंड, दक्षिण– 15 फुट बौड़ी सड़क तथा 20.07.2022 से त्त गंगा देवी की। संपत्ति, महेंद्र सिंह अर्थात् आपके बीच में से नं. 1 से संबंधित है। संविदात्मक दर के सृजन हेतु नामाधिकार विलेखों के जमा का ज्ञापन दिनांकित : 20.03.2017 पर ब्याज एवं

आर्केंडिया ग्रांट, प्रेम नगर, देहरादून, उत्तराखंड–248007, यहां पर भी : मीना देवी पत्नी महेंद्र सिंह, खसरा सं. 1291, मौजा–आर्केंडिया ग्रांट परगना-पचवादून, देहरादून, उत्तराखंड-248001 (खाता सं. 22317950000001, 22317950000005)

करने में विफल रहने पर, सूचना की तिथि के 60 दिवसों के समापन के उपरांत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त-अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाहियां की जायेंगी। इतना ही नहीं, ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को एतद्द्वारा हमारी पूर्व सहमति लिये बिना उपरोक्त वर्णित उक्त किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति का किसी भी प्रकार, चाहे जैसा भी प्रकार हो, लेन-देन करने से प्रतिबंधित किया जाता है। यह सूचना, विषयगत

अधिनियम तथा/अथवा किसी अन्य लागू कानून के अंतर्गत हमारे पास उपलब्ध किसी अन्याधिकार के पूर्वाग्रह के बिना निर्गत की गयी है। स्थान : देहरादून दिनांक : 18.11.2022

यस बैंक लिमिटेड YES // BANK

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई-400055

कब्जा सूचना (धारा अंतर्गत नियम 8(1) अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने यस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पनर्निर्माण और प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) केतहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगमें यहां निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को एक मांग सूचना जारी करधारा 13(2) के अंतर्गत उक्त सचनाओं प्राप्त होने की दिनांक से 60 दिनों के भीतर उल्लेखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया।

उधारकर्ताओं उक्तराशि चुकाने में विफल रहे हैं, एतद् द्वारा उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सहपठित उक्त नियमों के नियम 9 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निम्न वर्णित संपत्तियों पर सांकेतिक कब्जा प्राप्त में ले लिया है।

संबंधित उधारकर्ता को विशेष रूप से और आम तौर पर जनता को आगाह किया जाता है कि वह उक्त संपत्तियों से व्यवहार ना करें और उक्त संपत्तियों के साथ कोई भी व्यवहार निम्न वर्णित राशि और उस पर संविदात्मक दर पर ब्याज के लिए यस बैंक लिमिटेड के प्रभार के

उधारकर्ता का नाम	ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत संपत्ति का विवरण	सूचना राशि (रु.)	दिनांक पुन: कब्जे की दिनांक
(1) मैसर्स बानब्रोस मेटाल्लोयस (उधारकर्ता) (2) श्री सुनील कुमार बंसल (गारंटर/बंधककर्ता) (3) श्रीमती संगीता बंसल (गारंटर)	1. 05318460 0001400 2. 531LA402 02430003	दुकान धारक सं. एफएफ—08,प्रथम तल पर, मापक 395.31 वर्ग फुट, लिना छत अधिकारों , स्थित विष्णु प्लेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, संक्टर—20बी, अजरोंदा, तहसील और जिला फरीदाबाद, हरियाणा	रूपये 33,50,397.14/– (रूपये तैंतीस लाख पचास हजार तीन सौ सत्तानबे और चौदह पैसा मात्र)	17-07-2022 14-11-2022

जैसा कि अधिनियम की धारा 13(8) के तहत विचार किया गया है, यदि हमारे द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ हमारे बकाए को बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित दिनांक से पहले किसी भी समय चुका दी जाती है, तो प्रत्याभूत परिसंपत्ति हमारे द्वारा बेची या स्थानांतरित नहीं की जाएगी, और उस प्रत्याभृत परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

हस्ता/— ( प्राधिकृत अधिकारी)

यस बैंक लिमिटेड

दिनांक : 14.11.2022 स्थान : दिल्ली

ई—नीलामी बिक्री सूचना

# एडलवाइस एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN - U67100MH2007PLC174759 पंजिकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, प्रथम तल, ऑफ सीएसटी रोड, कलीना, मुंबई 400098

शाखा कार्यलय : ई-3, दूसरा तल, दिल्ली प्रेस,रानी झांसी रोड, झंदेवालान, नई दिल्ली- 110055 वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन)

नेयमों, 2002 के परंतुक के साथ पेठित नियम 8(ँ६) और 9 (1) के तहत अचल प्रत्यभूत परिसंपत्ति(यों) की बिक्री हेतु ई—नीलामी बिक्री सूचना। समनदेशक / प्रत्याभत ऋणदाता की वित्तीय सविधाओं को एडेलवाइस एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड को सौपा गया है . जो ईएआरसी टस्ट-एससी-37 1 के टस्टी वे

रूप में अपनी क्षमता से कार्य करता है और स्पष्ट रूप से प्रवान किए गए कॉलम में उल्लेख किया है। उक्त अभिहरतांकन के अनुसार, ईआरसी ने समनुदेशक के रूप में और प्रत्याभूत ऋणदाता के अपने अधिकारों की तरह कार्य किया। उक्त ईआरसी ने प्रत्याभूत ऋणदाता के रूप में अपनी क्षमता से निम्न वर्णित अचल प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का नुष्या अन्यता के जन्म जावका अंतरिष्ठ कार्य प्रकार प्रकार किया किया है। सरफैसी अधिनियम के 15(4) और उसके तहन नियमों के अंतर्गत कब्जा कर लिया था। एतंद द्वारा क. सं. 1 के उचारकर्ता को 15 दिन की सूचना / क. सं. 1 के उचारकर्ता को 30 दिन की सूचना और आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से उचारकर्ता और गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत ऋणदाता के पक्ष में बंधक रखी निम्न अचल प्रत्याभूत संपत्ति जिसका वर्णन किया गया है, जिसका भौतिक कब्जा प्रत्याभूत ऋणवाता के प्राधिकृत अधिकारी (एओ) द्वारा लिया गया है, उसे ''**जो है जहां है'', ''जो है जैसा है'' और ''वहां जो कुछ भी है''** आधार पर, ईएआरसी के निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली के लिए, भविष्य के ब्याज और अन्य ब्ययों/लागतों के साथ उधारकर्ता और गारंटर से ईआरसी द्वारा प्राप्त किसी भी रूपयों कि कटौती बाद बेची जाएगी। प्रत्येक संपत्ति के लिए आरक्षित मुल्य और अग्रीम राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है।

नीलामी के लिए रखी गई प्रत्याभूत परिसंपत्ति का विवरण

क्रं. सं.		उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम	ट्रस्ट का नाम	बैक का नाम और शाखा, खाता संख्या और आईएफएससी कोड	कुल बकाया (रू. में) 15.07.2022 तक	आरक्षित मूल्य (आईएनआर में)	ईएमडी (आईएनआर)	नीलामी की दिनांक और समय	कब्जे का प्रकार	
1	ऋण खाता सं. 1293279	जिगेंद्र त्यागी (उधारकर्ता) संग श्रीमती राकेश त्यागी और श्री नवीन त्यागी (सह–उधारकर्ता)	ईएआरसी– ट्रस्ट–एससी– 375 एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड (''एचडीबी''/ समनुदेशक)	आईसीआईसीआई बँक लिमिटेड, निरमन पाइंट, (000405118306) ICIC0000004	₹ 1,13,92,141.81/-	₹ 72,00,000/-	₹ 7,20,000/-	21.12.2022 दोपहर 12:00 बजे	भौतिक	

संपत्ति का विवरण : ''निर्मित संपत्ति धारक मकान सं. के–80/14,खसरा सं. 456 में स्, मापक 100 वर्ग गज, निहित वहां जो कुछ भी है और अंतिम तत तक निर्माण के अधिकार के साथ, स्थित गोंडा गुजरन, खादर, गली सं. 20, सुभाष मोहल्ला, पश्चिमी गोंडा, इलाका शहादरा, दिल्ली–110053 का संपूर व सर्वांगीण भाग ''। **सीमांकन प्रकार : पूर्व :** 15 फुट चौड़ी सड़क, **पश्चिम :** अन्य संपत्ति, **उत्तर :** अन्य संपत्ति, **दक्षिण :** अन्य संपत्ति

संपत्ति का विवरण : ''बंधक संपत्ति धारक खसरा सं. 302 मापक पूर्व : 25 फुट, पश्चिम 25 फुट, उत्तर 51 फुट, दक्षिण 51 फुट या 141 (2/3 वर्ग गज) स्थित ग्राम गुखना परगना लोनी गाजियाबाद उत्तरप्रदेश—21003 का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग **संपत्ति सीमांकन निम्न प्रकार : पूर्व :** कामेश्वर की संपत्ति, **पश्चिम :** 12 फुट चौड़ा रास्ता, **उत्तर :** विक्रेता का शेष भाग, **दक्षिण :** सुरेश चंद्र का प्लॉट

	ऋण खाता सं. एचडीडी००० ७०एन	नंतर्स श्री बालाजा ऑनमिंट्स ज्वैत्व्सं अपने मालिक के माध्य से श्री बॉबी वर्मा (उधारकर्ता) श्री दीपा वर्मा, श्रीमती सीमा वर्मा, श्री महेश चंद वर्मा और श्रीमती प्रेम लता वर्मा (सह—उधारकर्ता)	इंडसंड वैंक लिमिटेड (''आईबीएल''/ समनुदेशक) ट्रस्ट एससी 353	आईसीआई सीआई बैंक लिमिटेड, नरिमन पाइंट, (0004051 23431) ICIC0000004	₹ 3,08,56,608.71/-	₹ 70,00,000/-	₹ 7,00,000/-	0.812.2022 पूर्वाह्न 11 बजे	भौतिक	
--	-------------------------------------	--	---	--	--------------------	------------------	-----------------	-----------------------------------	-------	--

संपत्ति का विवरण : ''खसरा सं. 203, रकबा 25 फुट X 10 फुट यानी 250 वर्ग फुट या 23.2250 वर्ग मीटर पर प्लॉट, स्थित मौजा अरसेडिया ग्रांट, परगन सं टूल दून, देहरादून कैंटोमेंट क्षेत्र, देहरादून, उत्तराखण्ड का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग।'' **सीमांकन प्रकार : पूर्व** : प्रेम नगर मापक 10 फुट, **पश्चिम :** जिलेंद्र कुमार की संपत्ति, उत्तर: विनय कुमार की संपत्ति, दक्षिण: राजेश कुमार की संपत्ति

2	ऋण खाता सं. 1161031	श्री रोशन कुमार झा (उधारकर्ता) संग अनु झा (सह—उधारकर्ता)	दीवान हाउसिंग फाइनेस लिमिटेड, ''ईएआरसी–ट्रस्ट'' एससी–371	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, निरमन पाइंट, (000405118304)	₹ 26,79,43784/-	₹ 7,15,000/-	₹ 71,500/-	21.12.2022 अर्पाह्न 01 बजे	भौतिक
---	---------------------------	---	---	---	--------------------	-----------------	---------------	----------------------------------	-------

संपत्ति का विवरण : बंधक संपत्ति / फ्लॅट सं.एफ-2, मापकक्षेत्र 34.83 वर्ग गज या 375 वर्ग फुट एलआईजी प्रथम तल पर बिना छत अधिकार पीछे की ओर प्लॉट सं सी–70 पर सुपर निर्मित मापक क्षेत्र 173.33 वर्ग गज, स्थित ग्राम बहरामपुर भोपुरा, आवासीय कॉलोनी डीएलएफ एक्सटेंशन–2, परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश–201010 का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। **सीमांकन प्रकार : पूर्व** : प्लॉट सं.सी–69, **पश्चिम :** प्लॉट सं.सी–71, **उत्तर :** प्लॉट सं.सी–39 , **दक्षिण** :

		नीलामी प्रक्रिया के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी				
	1. सभी डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) ट्रस्ट नाम के पक्ष में आहुत किए जाएंगे जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और मुंबई में देय है।					
	2.	ईएमडी जमा करने की अंतिम दिनांक	नीलामी की दिनांक से एक दिन पहले प्राप्त			
	बोलिया जमा करने के लिए स्थान     नीलामी की जगह (नीलामी के लिए वेबसाइट)		रिटेल सेंट्रल ऑफिस, मुंबई (ऊपर वर्णित)			
			ई–नीलामी (https://auction.edelweissarc.in)			
	5.	संपर्क व्यक्ति संग फोन नं.	श्री अजय कुमार, मोबाईल नं. 9867945407, श्री अनुज जैन, मोबाईल नं. 96500963411 , श्री विनोद गोला मोबाईल नं. 7304948478			
	6.	संपत्ति का निरीक्षण दिनांक और समय	पूर्व समयादेश अनुसार			
	बिकी की शर्तों और विस्तृत जानकारी के लिए, कप्रमा ईएआएसी के द्वारा पदन लिंक वेबसाइट यानी https://auction.edelweissarc.in का संदर्					

स्थान : दिल्ली हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी प्रति एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड दिनांक : 14—नवंबर—2022

**☀** Edelweiss



# अपना विजनेस



गैस നയ से राहत पेट सफा... तो हर रोग दफा

गजब न फायदा

अगर आप भी कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी परेशानियों से घिरे हुए है, तो आज ही लीजिए, आयुर्वेदिक पेट सफा ग्रेन्यूल्स। यह पहले दिन से असर दिखाता है, मुंह में चिपकता नहीं और इसकी आदत भी नहीं बनती।



अक्तूबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटी पर गांवों को राहत नहीं

# ग्रामीण क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की महंगाई बढी

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की महंगाई में भले ही गिरावट दिखाई दे रही हो लेकिन शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में खाने पीने की चीजों के दाम

आंकड़ों के मुताबिक उपभोक्ता खाद्य मुल्य सूचकांक में अक्तूबर महीने में शहरों के मकाबले ग्रामीण इलाके 0.75 फीसीद से भी ज्यादा महंगे रहे हैं। वहीं पिछले महीने के साथ साथ पिछले साल अक्तूबर में भी गांव सस्ते हुआ

आंकड़ों के मुताबिक अक्तूबर में महंगाई दर 6.77 फीसदी रही। इसमें शहरी महंगाई 6.50 फीसदी और ग्रामीण महंगाई 6.98 फीसदी रही। वहीं कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स अक्तूबर में 7.01 फीसदी पर रहा। इसमें शहरी महंगाई 6.53 फीसदी और ग्रामीण महंगाई 7.30 फीसदी पर रही।

**मुंबई, एजेंसी।** कमजोर वैश्विक संकेतों

के बीच प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और

निफ्टी गिरकर बंद हुए। इस दौरान 30 शेयरों

वाला बीएसई सेंसेक्स 230.12 अंक या

0.37 प्रतिशत टूटकर 61,750.60 पर

बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 337.45

अंक या 0.54 प्रतिशत तक टूट गया था।

दसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का

निफ्टी 65.75 अंक या 0.36 प्रतिशत की

गिरावट के साथ 18,343.90 पर बंद हुआ।

टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति,

अक्तूबर में ग्रामीण

में खाद्य महंगाई इस साल अक्तूबर में

दुलाई की लागत पड़ रही भारी इस साल अक्तूबर में अनाज और उससे जुड़े उत्पाद, दूध और उससे जुड़े उत्पाद, फल. सिंजयां. कपडे चप्पल और परिवहन महंगा हुआ है। जानकारों की राय में गांवों तक वस्तुओं की ढुलाई महंगी होने की वजह से वहां चीजों की कीमतें शहरों के मुकाबले बढ़ जाती हैं।

## बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में क्या है स्थित

उत्तर प्रदेश 🕒	6.80	आंध्र प्रदेश 🚃	7.93
झारखंड	6.73	गुजरात ।	6.94
उत्तराखंड	6.24	मध्य प्रदेश 🔳	7.49
बिहार	5.84	महाराष्ट्र 📗	7.22
दिल्ली	2.99	तमिलनाडु 🏻	7.10
हरियाणा 💳	7.79	तेलंगाना 📉	8.82
	(महंगाई दर% में)	प . बंगाल 🔲	7.71
0 0 2.	<u> </u>	<del></del>	

दिल्ली में सबसे देश के नौ राज्यों में राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा महंगाई दर्ज की गई कम महंगाई है। महंगाई के मामले में सबसे ऊपर तेलंगाना है।

डॉलर के मुकाबले रूपया 37 पैसे फिसला

# डीजल कारों के भविष्य पर संकट, घट रहा उत्पादन

30

25

एक दशक पहले तक डीजल वाहनों के सबसे बड़े बाजारों में से एक रहे भारत में अब डीजल कारों की हिस्सेदारी 20 फीसदी से भी कम हो गई है। डीजल कारों की बिक्री में गिर-ावट के कारणों पर पेश है सुमंत बनर्जी की रिपोर्ट।

### ऐसे घट रही बाजार में हिस्सेदारी । बडी कंपनियों ने डीजल

हिस्सेदारी थी डीजल कारों की 🕖 एक दशक पहले तक


फीसदी हिस्सेदारी है कॉम्पैक्ट 16% एसयूवी में

हिस्सेदारी छोटी कारों में डीजल 🖊 गॉडल की जबिक 80 फीसदी हिस्सेदारी चार मीटर से बड़ी एसयुवी में

# कार बनाना बंद किया

मारुति सुजुकी,रेना,निसान और फॉक्सवैनग समूहकी फॉक्सवैन, स्कोडा और ऑडी ने भारत में डीजल कार बनाना बंद कर दिया है। मारुति द्वारा डीजल मॉडल बंद करने के फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा। हाल ही में टोयोटा ने इनोवा के भी डीजल वर्जन को बंद

#### डीजल वाहनों की हिस्सेदारी घटी पेट्रोल-डीजल के दाम में कम होता अंतर ( अंतर प्रति लीटर रुपये में ) — पेट्रोल



#### डीजल कारों का भविष्य क्या है

उत्सर्जन मानदंडों का दूसरा चरण अगले साल लागू होने वाला है। यह ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक डिवाइस द्वारा रीयल–टाइम उत्सर्जन ट्रैकिंग को अनिवार्य करेगा, जो वाहनों को महंगा बना देगा। अधिकांश कंपनियां छोटे डीजल वाहन का निर्माण बंद कर सकती हैं। हाल ही में टोयोटा ने इनोवा के भी डीजल वर्जन को बंद कर दिया है। mint

डीजल वाहन माल ढुलाई का मुख्य आधार बने रहेंगे, यात्री वाहनों में इसकी संभावनाएं अब धूमिल हो रही हैं। बीएस–6

# म्यूचुअलफंडभुगतानमेंदेरीपरब्याजदेंगीएएमसी

नर्ड दिल्ली. एजेंसी। बाजार नियामक सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों के लाभांश और यूनिट बेचने से प्राप्त राशि के अंतरण के मामले में संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के लिए नए नियमों को अधिसुचित किया है।

सेबी ने कहा कि नए नियम के तहत प्रत्येक म्युचुअल फंड और संपत्ति प्रबंधन कंपनी को यूनिटधारकों को लाभांश भुगतान तथा यूनिट भुनाने या पुनर्खरीद राशि सेबी की तरफ से तय अवधि के भीतर अंतरण करने की जरूरत होगी। अगर राशि निर्धारित अवधि में ट्रांसफर नहीं की जाती है, संबंधित स्कंपनी (एएमसी) को विलंब के अनुसार ब्याज भगतान करना होगा

## कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

ः ई–बिड सूचना संख्या ः पश्चिम/17/2022–23 ः-विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से प्राधिकरण एवं राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत बिर्ड्स से सिविल कार्यों हेतु ई–बिर्ड आमंत्रित की जाती है। इन कार्यों की अनुमानित ागत बिड बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, बिड शर्ते आदि सम्पर्ण विवरण वेबसाईट ww.jodhpurjda.org, एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है

राज.संवाद/सी/10385/2022–2023

# वाहन शेयरों के दबाव से सेंसेक्स टूटा

अमेरिका के मजबूत खुदरा बिक्री के आंकड़ों के बाद वहां के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा सख्त मौद्रिक नीति की गुंजाइश को देखते हुए डॉलर मजबूत हो गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रूपया ८१.६२ पर खुला। कारोबार के दौरान रूपया ८१.४५ के दिन के उच्चस्तर और 81.68 के निचले स्तर तक पहुंच गया था।

घरेलू शेयर बाजार में कमजोरी के रुख और विदेशों में डॉलर के मजबूत होने से अंतरबैंक

विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 37 पैसे

की गिरावट के साथ 81.63 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। बाजार सूत्रों ने कहा कि

एचडीएफसी, डॉ रेड्डीज, बजाज फिनसर्व, में नुकसान रहा। वहीं आईसीआईसीआई इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक के शेयरों बैंक और एयरेटल बढ़त के साथ बंद हुए।

## गर्य की अधिकतम अनमानित लागत: राशि रू. 515.92 लाख ।

UBN CODE/BID ID अधिशाषी अभियंता (पश्चिम)

# कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति

सम्भल जनपद सम्भल

# आवश्यक सूचना/ अपाल

मण्डी क्षेत्र सम्भल के समस्त कषक भाईयों एवं मंडी के लाईसेंसधारी व्यापारियों को एतद द्वारा सचित किया जाता है कि कषक अपना कषि उत्पाद साफ-सफाई करके मण्डी स्थल सम्भल में लाये और मण्डी में प्रवेश करते समय प्रवेश पर्ची अनिवार्य रूप से प्राप्त करें. विकय के पश्चात जिस आढ़ती के यहां अपना उत्पाद विकय किया है. विकय उपरान्त आढती से पर्चा काश्तगार 6आर अवश्य प्राप्त करें। यदि किसी भी आढती द्वारा अनाधिकत रुप से टी॰डी॰एस॰, कर्दा गर्दा आदि की कटौती नियम विरूद्ध की जाती है तो उसकी सचना से तत्काल मण्डी समिति सम्भल के कार्यालय को अवगत कराये लाईसेंसधारी का दायित्व होगा कि वे कषकों के उत्पादों के विक्रय पश्चात तत्काल 6आर उपलब्ध कराये तथा कृषकों से किसी भी प्रकार की कोई अनुचित कटौती न की जाये । यदि समिति के संज्ञान में कोई प्रकरण आता है तो सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।जिसके लिये फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी।

सचिव

(विनय कुमार मिश्र) सभापति/उपजिलाधिकारी

# बैंककर्मी शनिवार को हड़ताल पर रहेंगे

नर्ड दिल्ली, एजेंसी। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने नौकरियों की आउटसोर्सिंग के विरोध में शनिवार को हडताल का आह्वान किया है। संघ के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हड़ताल से सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों का कामकाज प्रभावित हो सकता है। हालांकि, इससे निजी क्षेत्र के बैंक प्रभावित नहीं होंगे। अधिकारी वर्ग इस हड़ताल में शामिल नहीं होगा, लेकिन इससे बैंकों में जमा, निकासी, चेक का काम प्रभावित हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब एंड सिंध बैंक समेत कई बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को हड़ताल के बारे में सुचित कर दिया है। वेंकटचलम ने कहा कि कुछ बैंकों द्वारा नौकरियों की आउटसोर्सिंग से ग्राहकों की गोपनीयता और उनकी जमा धन को लेकर जोखिम पैदा हो सकता है। कुछ बैंक औद्योगिक विवाद ( संशोधन ) कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं।

# सारदा ग्रुप की संपत्तियां

<mark>नर्ड दिल्ली. एजेंसी।</mark> बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को सारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तीन संपत्तियां नीलामी के लिए रखा है। यह नीलामी 5.21 करोड़ रुपये के आरक्षित मल्य पर 16 दिसंबर को होगी। यह कदम कंपनी के अवैध योजनाओं के जरिये लोगों से जुटाये गए धन की वसूली का हिस्सा है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जून में अपने आदेश में सेबी को सारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की संपत्तियों की नीलामी के लिए कदम उठाने को कहा था। इस संदर्भ में सभी काम तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

# नगर निगम मुरादाबाद

## ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रण सूचना

की जा रही है। उक्त निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्ते नगर निगम की वेबसाईट www.nagar nigammoradabad.in और http://etender.up.nic.in पर भी देखी जा सकती हैं। महाप्रबन्धक (जल)

# उत्तर रेलवे

सूचना

ई फाईल नं.—145404 प0सं0—ई / ई0ओ० / कान्ट्रेक्ट पैरा मेडिकल स्टाफ / 20 दिनांक 17.11.2022

इस कार्यालय द्वारा दिनांक 13.10.2022 को पैरा मेडिकल स्टाफ फार्मेसिस्ट रेडियो ग्राफर एवं लेब असिस्टेन्ड के लिये आवेदन मांगे गये थे जिसमें आवेदन मांगने की अन्तिम तिथि 11.11.2022 तथा साक्षात्कार दिनांक 25.11.2022 को निर्धारित था, जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है। इन आदेशों को सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

### कार्यालय क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी. मरादाबाद मण्डल. मरादाबाद सूचना

क्षेत्रीय खेल कार्यालय, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्पोर्ट्स स्टेडियम मुरादाबाद में बैडिमन्टन कोर्ट की बुडन फर्श की लकडी सढी-गली, जर्जर, बिजली उपकरण, स्थायी उपकरण /अस्थायी क्रीडा सामग्री आदि निष्प्रयोज्य सामग्रियों की नीलामी 23-11-2022 को अपरान्ह 12-30 बजे किया जाना है। बोलीदाता को रूपये 1,000-00 जमानत राशि बोली से पूर्व कार्यालय में नकद रूप में जमा करनी होगी। निष्प्रयोज्य सामग्री जिस स्थिति में है उसी स्थिति मे लेनी होगी ।

इच्छुक बोलीदाता उक्त तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

(प्रेम कुमार) क्रीडा अधिकारी, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद

## आवश्यक सूचना

### कार्यालय:- प्रवर अधीक्षक डाकघर, मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद-244001

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय डाक विभाग मुरादाबाद मंडल के सम्बंधित क्षेत्रों में उपडाकघर हेतु भवन की आवश्यकता है। भवन स्वच्छ हवादार, पेयजल, शौचालय व बिजली की व्यवस्था से संसज्जित तथा साइकिल स्टैंड की उचित व्यवस्था सहित होना आवश्यक है। इक्छुक व्यक्ति भवन के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों, भवन के नक्शे, गृहकर व जलकर की रसीद तथा बिजली के बिल की प्रति समेत वांछित किराए का विवरण देते हुए अपना प्रस्ताव 30 दिन के भीतर भवन शाखा, कार्यालयः-प्रवर अधीक्षक डाकघर, मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद-244001 को प्रेषित करें। निम्न क्षेत्रफल एवं स्थान की आवश्यकता है

क्र.सं.	उप डाकघर का नाम	स्थान का नाम	क्षेत्रफल(डाकघरहेतु)
1	चंदौसी मुख्य डाकघर	चंदौसी (संभल)	1777 वर्ग फीट ( 166 वर्ग मीटर )
2	मिलक उप डाकघर	मिलक (रामपुर)	662 वर्ग फीट ( 62 वर्ग मीटर )
3	बिलासपुर उप डाकघर	बिलासपुर (रामपुर)	754 वर्ग फीट ( 70.04 वर्ग मीटर )
4	चंदौसी बड़ा बाजार उप डाकघर	चंदौसी (संभल)	400 वर्ग फीट ( 37.1 वर्ग मीटर )
5	धनौरा उपडाकघर	धनौरा ( अमरोहा )	779 वर्ग फीट ( 73 वर्ग मीटर )
			2

आज्ञानुसार प्रवर अधीक्षक डाकघर मुरादाबाद मंडल,मुरादाबाद 244001

# निदेशालय, होम्योपैथिक चिकित्सा सेवायें

उत्तराखण्ड

पत्रांकः 770/नि॰हो॰/निविदा-1091/2022-23 दिनांकः 16 नवम्बर, 2022

## -: ई० निविदा सूचना :-

उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों, राष्टीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्थापित चिकित्सालयों, आर०सी०एच० एवं त्वचा रोग केन्द्रों के लिये औषधि क्रय किये जाने हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की शर्तें, निविदा फॉर्म एवं अनुबन्ध आदि की विस्तृत जानकारी एन०आई०सी० की वैबसाइट www.uktenders.gov.in पर लॉगइन कर प्राप्त की जा सकती है। (डा० जे०एल० फिरमाल)

निदेशक (प्र०).

### इनसिल्को लिमिटेड

तिथि : 17 नवम्बर, 2022 स्थान : पलवल, हरियाणा

(25-06-2021 की प्रभावी तिथि से स्वैच्छिक परिसमापनाधीन) सीआईएन : L34102UP1988PLC010141

**पंजी. कार्यालय** : ए–5, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट, भारतीयग्राम, गजरौला, जिला– अमरोहा, यूपी. – 244223 फोन : **09837923893**, फैक्स : (05924) 252348, ईमेल आईडी : insilco2@gmail.com, वेबसाइट : www.insilcoindia.com <u>इनसिल्को लिमिटेड की प्रास्थगित असाधारण सामान्य बैठक के संबंध में जानकारी</u>

एतदद्वारा यह सचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की **असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम)** मंगलवार, 15 नवम्बर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जानी निर्धारित थी, जिसमें असाधारण सामान्य बैठक के . आयोजन की सचना दिनांकित 21 अक्टबर, 2022 में सचीबद्ध कार्य निष्पादित किए जाने नियत थे तदनुसार, ईजीएम की सूचना, उक्त सूचना में सूचीबद्ध कार्यों के निष्पादन हेतु, सभी शेयरधारकों को प्रेषित की गई थी।

ईजीएम की उक्त निर्धारित तिथि अर्थात 15 नवम्बर, 2022 को, ईजीएम के आयोजन हेतु आवश्यव गणपूर्ति उपलब्ध नहीं थी और इसलिए ईजीएम अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय के लिए स्थगित

अब, एतद्ञ्वारा कम्पनी के सभी सदस्यों / शेयरधारकों को सूचना दी जाती है कि प्रास्थगित असाधारण सामान्य बैठक (ईजीएम) मंगलवार, 22 नवम्बर, 2022 को अप. 2.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से, ईजीएम के आयोजन हेतुं असाधारण सामान्य बैठक के आयोजन की सूचना दिनांकित 21 अक्टूबर 2022 में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी।

- www.insilcoindia.com पर उपलब्ध हैं।
- यदि किसी व्यक्ति को प्रास्थगित ईजीएम अथवा किसी अन्य अनुषंगी विषय के साथ संबंधित कोई संदेह / शिकायत है, वह insilco2@gmail.com को ई—मेल लिख सकता है । कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 116 के अनुसार, प्रस्ताव, सभी प्रयोजनों हेतु, उस तिथि

को पारित माना जाएगा, जिस तिथि को यह वस्तुतः अर्थात 22 नवम्बर, 2022 को पारित किया वास्ते इनसिल्को लिमिटेड (25-06-2021 की प्रभावी तिथि से स्वैच्छिक परिसमापनाधीन

हस्ता./-गीतिका वार्ष्णेय कम्पनी सेक्रेटरी एवं अनुपालन अधिकारी

#### कार्यालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश विद्याभवन परिसर, जे०बी०टी०सी० कम्पाउन्ड, दृष्टिबाधित छात्रों का छात्रावास,

निशातगंज, लखनऊ–226007 (दूरभाष–0522–2780911, 2780912)

(संविदा के आधार पर सेवायें लिये जाने के अन्तर्गत विज्ञप्ति जनपद का नामः लखनऊ विज्ञोपन संख्या :– 01–2022 / रा0आ0दि0ज0 / 353 / 2022–23

कार्यालय राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उ०प्र०, लखनऊ के सुद्ढ़ीकरण के लिए नियत वेतन पर संवदि। के आधार पर उपायुक्त दिव्यांगजन, उ०प्र० के ०४ पर्दों पर भर्ती हेतु भारत के नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसी कम में राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उ०प्र० लखनऊ द्वारा संविदा के आधार पर उपायुक्त की विभिन्न श्रेणियों के पद हेतु पूर्व में विज्ञापित समस्त विज्ञापनों को निरस्त करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 में वर्णित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के अनुकम में उपर्युक्त 04 उपायुक्त पद शा०र 3/2021/324/2021/65–3–2021 –78/99टीसी दिनांक 30 जुलाई 2021 के अन्तर्गत चिन्हांकित दिव्यागता वाले व्यक्तियों से भरे जायेंगे भावेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 21 दिन के बाद की प्रथम कार्यदिवस की तिथि सायंकाल बजे तक निर्धारित है। इन पदों की श्रेणी, शैक्षिक अर्हता, अनुभव व आयुसीमा एवं नियतवेतन आदि निम्नवत् है:-

उपायुक्त के 4 पदों को शासनादेश संख्या- 3/2021/324/2021/ 65-3-2021-78/99टीसी दिनांक 30 जुलाई 2021 के अनुकम में उपायुक्त के लिए निम्नानुसार चिन्हांकित दिव्यागता वाले व्यक्तियों से ही भरा जायेगा:-

11 11	1417 11 1134114 14 611441 14	II IOI TIVI TIVITI O QI TA
	दिव्यांगता का कोड	कोड का अर्थ
	डी0-	बधिर
	एच0एच0-	श्रवणशक्ति में हरास
	एल0वी0-	कम दृष्टि
	बी0-	दृष्टिहीनता
	ओ०ए०—	एक हाथ प्रभावित
	ओ०एल०—	एक पैर प्रभावित
	डी० डब्लू–	बौनापन
	ए०ए०वी०-	एसिड आक्रमण पीड़ित
	सी0पी0-	प्रमस्तिष्क घात
	एल0सी0—	रोग मुक्त कुष्ठ
V _	0010	

- उपायुक्त के 4 पदों पर नियुक्ति हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की योग्यता अनिवार्य होगी तथा उसे दिव्यागता के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा।
- उपायुक्त के 04 पदों पर नियुक्ति हेत् न्यूनतम आयु सीमा 24 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। उपायुक्त के 04 पदों पर कुल परिलब्धियाँ रू० 22,200/- एवं समय-समय पर देव महंगाई भत्ता होगी।

उक्त पदों के लिए शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत हैं:-संविदा की अवधि यथानिर्धारित अथवा पदों की निरन्तरता के अनुरूप परन्तु अधिकतम एक वर्ष की होगी। संविदा की अवधि को

संविदा की अवधि उभयपक्ष द्वारा 01 माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी

किसी भी आधार पर संविदा कर्मी का उक्त पद पर नियमित / स्थाई किए जाने हेत् किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

पदों की संख्या, नियत वेतन आदि परिवर्तनीय है, जिसका निर्धारण शासन द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।

उपायुक्त के इन पदों पर शासन द्वारा पद सृजन विषयक मूल शासनादेश एवं तद्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों मे उद्धत शर्ते एवं शासन द्वारा उपायुक्त के 04 पदों की आईताएं पुनः निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप उपायुक्त के 04 पदों को भरे जाने संबंधी पूर्व

में जारी विज्ञापन पत्रांक— 1766—71/253 (।।) दिनांक 14—11—2019, विज्ञापन संख्या 01—2019/रा0आ0दि0ज0/353/2019—20 दिनांक नवम्बर 2019 को निरस्त किया जा है। अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उक्त पदों हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया

अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश

अधिकतम आयु की गणना दिनांक 01 जुलाई 2022 से की जायेगी।

उपरोक्त पदों के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर फल साइज सादे कागज पर निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्राप्त हो जाये। रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे। अधूरे अथवा विलम्ब से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों को संविदा के आधार पर विभाग में तैनात किया जायेगा।

आवेदन-पत्र के साथ कोई शूल्क देय नहीं है।

आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करें:-

नवीनतम पासपोर्ट आकार का स्वहस्ताक्षरित / अंगूठे का निशान वाला फोटो आवेदन पत्र में चिपकाया जाये। आवेदन पत्र के साथ उल्लिखित विवरणों के साक्ष्य से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित छाया-प्रतियाँ संलग्न की

आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद का नाम अवश्य अंकित किया जाए।

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त न होने, अपूर्ण होने तथा आवेदन पत्र के अन्त में निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर न

होने की दशा में निरस्त कर दिया जाएगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

अभ्यर्थी के अर्ह एवं अनर्ह होने के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा

उपरोक्त पदों के लिए आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उ०प्र०, विद्या भवन, जे०बी०टी०सी० कम्पाउड, दृष्टिबाधित छात्रों का छात्रावास, निशातगंज, लखनऊ–226007 के पते पर आर्वेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि विज्ञापन प्रकाशित होने र्की तिथि से 21 दिन के बाद की प्रथम कार्यदिवस की तिथि सायंकाल 5 बजे तक निर्धारित है। किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकर नही किए जाएंगे। अधूरे अथवा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

> राज्य आयक्त दिव्यांगजन, उ०प्र०

### आवेदन पत्र के प्रारूप का आलेख्य

/ 01 / 2022 / रा०आ०दि०ज० / 353 / 2022-23 दिनांक विज्ञापन संख्याः-आवेदित पद का नाम:-

अभ्यर्थी का प्रमाणित फोटा

दिव्यांगता का प्रकार एवं कोड-दिव्यांगता का प्रतिशत-अभ्यर्थी का नाम:-

हिन्दी (देवनागरी लिपि) मे अंग्रेजी (कैपिटल अक्षरों में) लिंग

पिता / पति का नाम:-जन्म तिथिः (अ)-01 जुलाई 2022 को आयु

पत्र व्यवहार का पता:-दरभाष / मोबाइल नं0-स्थाई पता:-श्रेणी (जातिगत):- सामान्य/अनुसूचित जाति एवं जनजाति/पिछड़ा वर्ग

**श**क्षिक योग्यता:-कम सं0 परीक्षा का नाम

अन्य 10-राज्य का नाम:-

3-

4-

राष्टीयताः-

मै एतदद्वारा घोषणा करता / करती हूँ—

दिव्यांगता / पूर्नवास के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव, जिसके समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य संलग्न कर पूर्ण विवरण प्रार्थना पत्र के साथ अलग पष्ठ पर उल्लिखित कर संलग्न किया जाए।

दिव्यांगता की श्रेणी एवं प्रतिशत।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

### घोषणा पत्र

मैने विज्ञप्ति में दी गई पात्रता की शर्ते सावधानीपूर्वक पढ़ ली हैं तथा मुझे मान्य हैं और मै वे सभी शर्ते पूरी करता/पूरा करती हूँ। मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिये गये विवरण / सूचनाएं सत्य एवं सही हैं और मैने इस विवरण / सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है यदि कोई विवरण/सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाती है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। नियुक्ति हो जाने

के उपरान्त भी यदि ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं। संलग्नकों की संख्या– अभ्यर्थी के पतनीय हस्ताक्षर

दिनांक सहित

UP 181789, Dt., 17.11.2022, Website: www.upgov.nic.in